

Roll No.

DD-2781

B. Sc. (Part III) EXAMINATION, 2020

INDUSTRIAL CHEMISTRY

Paper Third

(Drugs)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 33

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से **एक** प्रश्न करना अनिवार्य है।

Attempt all the *five* questions. *One* question from each Unit is compulsory.

इकाई—1

(UNIT—1)

1. फाइटोरसायन क्या हैं ? इनके उगाने के तरीके, इकट्ठा करना, बाजार में बेचना एवं संग्रहण को समझाइये। 7

What are phytochemicals ? Discuss their cultivation, collection, marketing and storage.

अथवा

(Or)

बल्क औषधियाँ क्या हैं ? सल्फामैथॉक्साजॉल का संश्लेषण एवं गुणों का वर्णन कीजिए।

(A-16) P. T. O.

What are bulk drugs ? Discuss the synthesis and properties of Sulphamethoxazole.

इकाई—2

(UNIT—2)

2. टर्पीनोयड्स क्या हैं ? इनके वर्गीकरण एवं रासायनिक संघटन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

7

What are terpenoids ? Discuss a brief account of its classification and chemical constitutions.

अथवा

(Or)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए : प्रत्येक $3\frac{1}{2}$

- (i) टैनिन
- (ii) ग्लाइकोसाइड्स
- (iii) प्रोटीन

Write notes on any two of the following :

- (i) Tannin
- (ii) Glycosides
- (iii) Protein

इकाई—3

(UNIT—3)

3. एन्टीमाइक्रोबियल एजेंट क्या हैं ? फूराजोलिडीन एवं मरक्यूरोक्रोम के गुणों का वर्णन कीजिए।

7

What are Antimicrobial Agents ? Discuss the properties of Furazolidine and Mercurochrome.

अथवा

(Or)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

प्रत्येक $3\frac{1}{2}$

- (i) प्रोजेस्टीरॉन
- (ii) आईबूप्रोफेन
- (iii) टेस्टोस्टीरॉन

Write short notes on any two of the following :

- (i) Progesterone
- (ii) Ibuprofen
- (iii) Testosterone

इकाई—4

(UNIT—4)

4. विटामिन क्या हैं ? निम्नलिखित विटामिनों के मानव शरीर में अनुप्रयोगों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए :

6

- (i) विटामिन-ए
- (ii) विटामिन-बी₆
- (iii) विटामिन-सी

What are Vitamins ? Discuss the functions and applications of the following Vitamins in human body :

- (i) Vitamin A
- (ii) Vitamin B₆
- (iii) Vitamin C

अथवा

(Or)

बार्बिट्यूरेट्स का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

Describe the Barbiturates in detail.

**इकाई—5
(UNIT—5)**

5. इफीड्राइन का संश्लेषण एवं गुणों का वर्णन कीजिए। 6

Discuss the synthesis and properties of Ephedrine.

अथवा

(Or)

किण्वन का सिद्धान्त, विधि एवं बनने वाले उत्पादों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Discuss in brief the principles, method and product formed in fermentation.